



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5—जुलाई 11, 2008 (आषाढ़ 14, 1930)  
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5—JULY 11, 2008 (ASADHA 14, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2008

सं. ए-19013/03/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा, भा.प्र.से. (उत्तर प्रदेश : 91) को 16 जून, 2008 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हों, मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2008

सं. एफ-6(1955)/2005-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग द्वारा उनके मिशिल सं. 13016/3/2008 आई.ई.एस. के तहत दिनांक 10.06.2008 को जारी आदेश सं. टी-33(पीएम)/2007 का अनुपालन तथा योजना आयोग के दिनांक 15.05.2008 के समसंख्यक अधिसूचना को रद्द करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किए जाते हैं :--

- आई.ई.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी श्री विजय कुमार अत्री कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चण्डीगढ़ में उप सलाहकार पद पर बने रहेंगे; तथा

- आई.ई.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग के उप सलाहकार, श्री बल राम का प्रशिक्षण हेतु जा चुके श्री यश पाल के स्थान पर श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़ में संयुक्त निदेशक के तौर पर स्थानान्तरित किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2008

सं. ए-38013/1/2008-वि.सा.प्र.(प्र.)--श्री मदनलाल, प्रधान सम्पादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त पूरी होने पर तारीख 31 मई, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आर. सी. गाबा, उप सचिव

## विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जून 2008

सं. ए-12023/6/2007-प्रशा-III (वि.का.)--राष्ट्रपति, आयकर अपील अधिकरण के श्री जॉर्ज जॉर्ज के., न्यायिक सदस्य द्वारा दिनांक 14.5.2008 को दिए गए त्यागपत्र के नोटिस को स्वीकार करते हैं। श्री जॉर्ज जॉर्ज के., दिनांक 2 जून, 2008 के अपराह्न को आयकर अपील अधिकरण से कार्यमुक्त होंगे।

यशवंत सिंह, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2008

सं. ए-12023/18/2007-प्रशा-III (वि.का.)--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, श्री माहेर सिंह को दिनांक 07.05.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक आयकर अपील अधिकरण में लेखा सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. खान युसूफी, संयुक्त सचिव एवं  
विधि सलाहकार

## न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 जून 2008

सं. के-13021/1/2008-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुकानाहल्ली नरसिंहय्या सत्यनारायणा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 जून 2008

सं. के-13018/1/2008-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री हर्षवदन बिन्दुप्रसाद अंताणी और (ii) न्यायविद् श्री बंकिम निखिलभाई मेहता को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से गुजरात उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. गुर्गू निदेशक (न्याय)

दिनांक 12 जून 2008

सं. के-13031/2/2007-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजीत कुमार मिन्हा को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. गुर्गू निदेशक (न्याय)

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2008

सं. 13017/11/2008-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु तथा असम-मेघालय सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री पुरू गुप्ता, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 2006) को कुमारी संयुक्ता परासोर, भा.पु.से. (असम-मेघालय : 2006) से विवाह होने के आधार पर तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु के भा.प्र.से. संवर्ग से मणिपुर-त्रिपुरा के संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

एस. जे. कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2008

सं. 14015/23/2007-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं. 306/2007 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखण्ड संवर्ग में 02 रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा 28 दिसम्बर, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई 2007 की चयन सूची, जिसमें उत्तराखण्ड संवर्ग की राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री मंजूल कुमार जोशी (डीओबी : 08.12.1954) तथा श्री मोहन चंद्र उग्रनी (डीओबी : 25.12.1953) के नाम हैं, को 30 अप्रैल, 2008 को अनुमोदित कर दिया है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/23/2008-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिबीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, उत्तराखंड संवर्ग की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों, को तत्काल प्रभाव से, अगले आदेश होने तक वर्ष 2007 की रिक्तियों के विरुद्ध परिबीक्षा पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत उन्हें उत्तराखंड संवर्ग में आवंटित करते हैं :-

क्र. अधिकारी का नाम

सं.

सर्वश्री

1. मंजूल कुमार जोशी

2. मोहन चंद्र उग्रनी

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं. 306/2007 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2008

सं. 39019/02/2008-स्थापना(ख)--राष्ट्रपति, श्री आई. एम. जी. खान, सचिव, डाक विभाग को दिनांक 09 जून, 2008 (अपराह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती सती मोहनदास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2008

शुद्धि-पत्र

सं. 13017/11/2008-अ.भा.से.(1)--दिनांक 05.06.2008 की अधिसूचना सं. 13017/11/2008-अ.भा.से.(1) में आंशिक संशोधन करते हुए इसकी 5वीं लाइन में "मणिपुर-त्रिपुरा" शब्दों के स्थान पर "असम-मेघालय" पढ़ा जाए। अधिसूचना की शेष विषयवस्तु यथावत रहेगी।

एस. जे. कुमार, उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2008

सं. 17/पी.बी.1/2007--केन्द्रीय सिविल सेवा के पेंशन नियमावली, के नियम 48 के तहत भारतीय विदेश सेवा(ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री ओ. पी. नेरवाल, की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रार्थना की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, वे सरकारी सेवा से 01 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए, और उन्होंने उसी तारीख के पूर्वाह्न से विदेश मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी का पदभार भी त्याग दिया।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2008

सं. 6 (फा. सं. 4/18/2007-एडी.ईडी)--राष्ट्रपति, सुश्री वी. नीरजा, भारतीय पुलिस सेवा, (पंजाब : 1994) को दिनांक 15.05.2008 (अपराह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान में प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ में उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. के. खट्टर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2008

सं. 11/2008 (फा. सं. 6/3/2008-ई.एस.)--राष्ट्रपति, श्री पी. के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव एवं सरकारी सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय, को धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उनका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा तथा उन्हें उक्त न्याय निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद का अतिरिक्त प्रभार 1.2.2008 से 6 माह की अवधि हेतु अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, दिया गया है।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2008

सं. ए-19014/9/2008-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, श्री रघवीर सिंह, पेशकार, हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को प्रतिनियुक्ति आधार पर, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, दिनांक 02.04.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2008

सं. ए-32015/1/2004-आ.एस.(प्रशा.1)--राष्ट्रपति, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के श्री आशीष बनर्जी, कनिष्ठ अन्वेषक को दिनांक 1 जून, 2008 से 30 नवम्बर, 2008 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो, के लिए इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर की गई है, जिसके लिए श्री आशीष बनर्जी को इस पद पर बने रहने या इस ग्रेड में वरीयता मांगने या स्थाई होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार श्री बनर्जी की तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना या सूचना आदि दिए बिना हो समाप्त कर सकती है।

रंजन मुखर्जी, उप निदेशक (प्रशासन)

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2008

सं. 1(25)2004-विस्फोटक--राष्ट्रपति, निम्नलिखित विस्फोटक नियंत्रकों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) में नियमित आधार पर रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रकों के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण तिथि
1.	श्री सी. आर. सुरेन्द्रनाथन	31.12.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एम. एम. बेग	07.01.2008 (पूर्वाह्न)
3.	श्री आर. के. मेन्डोला	31.12.2007 (पूर्वाह्न)

ए. एस. धालीवाल, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 जून 2008

सं. ए-32013/04/2006-रा.प.शाला (स्था.)--राष्ट्रपति, श्री तिलक रॉय बर्मन, वैज्ञानिक अधिकारी (इलैक्ट्रिकल्स) को 12.05.2008 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक एस बी (इलैक्ट्रिकल्स) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2008

सं. ए-12011/9/2003-स्था.--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 19 सितम्बर, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री ए. एस. खान, नियमित सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) की उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 31.12.2007 के बाद वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01.01.2008 से 31.12.2008 तक अथवा उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद को नियमित आधार पर भर लिए जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति से श्री ए. एस. खान को उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायीकरण आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. इसको कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.6.2008 के यू.ओ. संख्या 8601/सी.आर./08 के तहत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जून 2008

सं. ए-12025/1/2007-स्था.--श्री शुभेन्दु घोष को वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 29.5.2008 (पूर्वाह्न) से रु. 6,500--10,500/- के वेतनमान में अस्थायी नियमित आधार पर अगले आदेशों तक विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

डॉ. एम. एम. वर्मा, निदेशक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 मई 2008

सं. 17013/01/2006-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उपविनियम, (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा के अधोलिखित अधिकारी का नाम मौजूदा रिक्तियों के लिए वर्ष 2006 की चयन सूची में शामिल होने के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के तहत भारतीय वन सेवा का आंध्र प्रदेश संवर्ग आबंटित करते हैं :-

नाम	जन्मतिथि
श्री के. लोहतामय्युडु	01.12.1957
अजय के. लाल, निदेशक	

दिनांक 4 जून 2008

सं. 17013/23/2006-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप

विनियम, (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा के अधोलिखित 5 (पाँच) अधिकारियों का नाम मौजूदा रिक्तियों के लिए वर्ष 2007 की चयन सूची में शामिल होने के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के तहत भारतीय वन सेवा का छत्तीसगढ़ संवर्ग आबंटित करते हैं :-

वर्ष 2007 की चयन सूची

क्र. नाम सं.	जन्मतिथि
सर्वश्री	
1. मोहम्मद शाहिद	29.09.1963
2. राजेश के. पाण्डे	29.06.1964
3. जनक राम नायक	25.06.1963
4. अभय कुमार श्रीवास्तव	05.01.1963
5. सुदामा प्रसाद राजक	02.01.1955

अजय के. लाल, निदेशक

दिनांक 6 जून 2008

शुद्धिपत्र

सं. 17013/23/2006 भा.व.से.-II--इस मंत्रालय की दिनांक 4.6.08 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित पैरा शामिल किए गए हैं :-

पैरा सं.-2 भा.व.सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के नियम 5(4) के परन्तुक के अंतर्गत वर्ष 2007 की चयन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल श्री आर. ए. पाठक की नियुक्ति को निष्ठा प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा में रोक दिया गया है।

पैरा सं.-3 यह अधिसूचना इस मंत्रालय की दिनांक 3.6.08 की समसंख्यक अधिसूचना के अतिरिक्त में जारी की जा रही है पूर्व में जारी अधिसूचना को रद्द माना जाएगा।

ए. के. लाल, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जून 2008

सं. क-12021/2/2006-सी.पी.डब्ल्यू.--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपर सचिव श्री जे. एम. माऊसकर (भारतीय प्रशासनिक सेवा, ए.एम. 77) को 31 अगस्त, 2008 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश जगने होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार का दायित्व सहर्ष जारी रखते हैं।

सुरेन्द्र कुमार, निदेशक

दिनांक 16 जून 2008

सं. क-12021/2/2006-सी.पी.डब्ल्यू.--डॉ. बी. सेनगुप्ता, सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यकाल 16 जून, 2008

(अपराह) को समाप्त हो रहा है। इनका कार्यकाल सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से 17 जून, 2008 (पूर्वाह) से तीन माह के लिए और बढ़ाया जाता है।

सुरेन्द्र कुमार, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2008

सं.जेड-16011/27/2006-आर एंड पी (आयु.)--सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (1) के सापेक्ष में आयुष विभाग की अधिसूचना संख्या जेड-16011/27/2006-आर एंड पी (आयुष)/आर.टी.आई. दिनांक 25 अक्टूबर, 2007/5.12.2007 के अनुक्रम में आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डॉ. डी. आर. लोहार, निदेशक, होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला (एच.पी.एल.) और भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला (पी.एल.आई.एम.), गाजियाबाद को एतद्वारा दोनों कार्यालयों में निष्पादित सभी मामलों के संबंध में तत्काल प्रभाव से अपीली प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

वर्गीज सैम्युअल, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 मई 2008

सं.जेड-16011/27/2006-आर एंड पी (आयु.)/आर.टी.आई.--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के सापेक्ष में आयुष विभाग की अधिसूचना संख्या जेड-16011/27/2006-आर एंड पी (आयु.)/आर.टी.आई. दिनांक 25 अक्टूबर, 2007/5.12.2007 तथा 19.3.2008 के अनुक्रम में आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डॉ. एस. के. घोष मंडल, निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता को एतद्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), में निष्पादित सभी मामलों के संबंध में तत्काल प्रभाव से अपीली प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

वर्गीज सैम्युअल, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2008

सं. 27-2617/2005-स्था.-1--राष्ट्रपति, श्री एस. एल. भट्ट, भा.प्र.से. (जे.के. : 76) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 28 अप्रैल, 2008 के अपराह से 22,400-525-24,500/- रु. के वेतनमान में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 मई 2008

सं. 27-2793/2008-स्था.-1--राष्ट्रपति, श्री आर. के. सिंह को दिनांक 16 मई, 2008 के पूर्वाह से 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता, कृषि मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 मई 2008

सं. 12022/2/2006-स्था.-I (भाग-I)--राष्ट्रपति, श्री विजय कुमार, सीएसएसएस के नियमित स्टेनो ग्रेड 'ग' को कृषि एवं सहकारिता विभाग में स्टेनो ग्रेड 'क' एवं 'ख' (आमेलित) (निजी सचिव के रूप में नामित) के पद पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 7 मई, 2008 (पूर्वाह) से 30.6.2008 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

2. यह पदोन्नति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और निजी सचिव के ग्रेड में नियमित पदोन्नति और वरिष्ठता के लिए कोई दावा प्रदत्त नहीं करेगी।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जून 2008

सं. ए-19011/4/2008-प्रशा-1--राष्ट्रपति, श्री के. ओमप्रकाश को इस विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में 09.06.2008 के पूर्वाह से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित उम्मीदवार के कार्यभार संभालने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर संयुक्त आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी.एल. मीना, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जून 2008

सं. 11-2/2008-प्रशासन-3--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. स्वेता रघुवंशी को 8,000-275-13,500/-रुपए के वेतनमान में सीधी भर्ती के आधार पर, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह से अगले आदेश तक के लिए सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए.के. जैन, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2008

सं. 22-30/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के दिनांक 04.06.2008 के आदेश सं. 36/19/2008 ईओ (एस. एम.-1)के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनिवार्य प्रतीक्षारत सुश्री शालिनी प्रसाद, भा.प्र.से. (उ.प्र. 85) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) में संयुक्त सचिव का नया पद-भार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करते हैं।

(श्रीमती) शकुन्तला जैन, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2008

सं. एफ. 5-1/2003-डी.-II(एल)--राष्ट्रपति डॉ. के. विजय कुमार, वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर, खलीकोटा कालेज (स्वायत्त), बेहरामपुर,

(उड़ीसा) को दिनांक 30.5.2008 से तीन वर्ष की और अवधि अथवा उड़ीसा सरकार से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अथवा आगामी आदेशों के जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो के लिए कार्यकाल आधार पर 18,400-22,400/- रु. के वेतनमान में इस विभाग के अधीन स्वायत्त कार्यालय वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त करते हैं। दिनांक 6.7.2005 की समसंख्यक अधिसूचना में यथा उल्लिखित अन्य निबंधन और शर्तें यथावत् रहेंगी।

रश्मि चौधरी, निदेशक

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2008

सं. एफ. 1-18/2004-युवा सेवा-1--नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नियमों के नियम 9 (क) के अनुसरण में श्री मधु गौड़ याशकी, सांसद (लोक सभा) को "संसद सदस्य" के अंतर्गत एक रिक्त स्थान पर भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शासी निकाय में सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है।

2. श्री मधु गौड़ याशकी की सदस्यता की अवधि उनके नामांकन की तारीख से तीन वर्ष तक अथवा संसद के भंग होने तक अथवा जब तक वे संसद के सदस्य बने रहें तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

3. यह नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उप-नियमों और नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा।

शारदा अली खान, निदेशक (युवा कार्य)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2008

सं. 15-6/2008-स्था.--राष्ट्रपति, श्री मोहन कृष्ण खन्ना, भा.प्र.से. (राज : 74) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भारत सरकार के सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री मोहन कृष्ण खन्ना ने दिनांक 02.06.2008 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

संजीव चक्रवर्ती, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जून 2008

सं. 3(2)/2008-कार्मिक.1.--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने श्रीमती शकुन्तला गुप्ता, वैयक्तिक सहायक को इस विभाग में पदोन्नत होने पर दिनांक 17.06.2008 के पूर्वाह्न से 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में निजी सचिव नियुक्त किया है।

2. उनकी नियुक्ति एक नियमित कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण हुए रिक्त पद पर की गई है और प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी के वापस आने की स्थिति में, यदि वे नियमित किसी रिक्त पद समायोजित नहीं होती हैं तो अपने वैयक्तिक सहायक के मूल पद पर पदावनत हो जाएंगी।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2008

सं. ई (ओ)-III/2008/आरएन/15--रेल टेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री आशुतोष वसंत, सेलेक्शन ग्रेड/भा.रे.सि.इंजी.से. ने 30.04.2008 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई (ओ)-III/2008/आरएन/16--रेल टेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री एस. बी. शर्मा, सेलेक्शन ग्रेड/भा.रे.सि.इंजी.से. ने 29.04.2008 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई (ओ)-III/2008/आरएन/17--रेल टेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री ए. शेषागिरी राव, व.प्र. ग्रे./भा.रे.सि.इंजी.से. ने 15.05.2008 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई (ओ)-III/2008/आरएन/18--रेल टेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री जे. पी. सिंह, व.प्र. ग्रे./भा.रे.सि.इंजी.से. ने 28.04.2008 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2008

सं. एलएच-21013/1/2004-एसएल.--राष्ट्रपति, श्री एच. येरीस्वामी, कनिष्ठ अभियंता (मिविल) को दीप-स्तंभ और दीप-पोत महानिदेशालय में 28 नवम्बर, 2007 पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

एस. के. गोस्वामी, अवर सचिव

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 18th June 2008

No. A-19013/03/2008-Ad. I—The President is pleased to appoint Ms. Nivedita Shukla Verma, IAS (UP : 91) as Director in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 16th June, 2008 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

SUNIL MISHRA, Director

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 16th June 2008

No. F. 6 (1955)/2005-Admn. I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-33 (PM)/2007 dated 10.06.2008 issued from their file No. 13016/3/2008-IES and in supersession of Planning Commission's Notification of even number dated 15.05.2008 the following are ordered :

1. Shri Vijay Kumari Attri, JAG officers of IES will continue to work as Deputy Adviser, Regional Evaluation Office, Chandigarh of the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission); and
2. Shri Bal Ram, JAG officer of IES and Deputy Adviser, Planning Commission is transferred as Joint Director, Labour Bureau, Chandigarh vice Shri Yash Pal who has proceeded on training

K. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 30th May 2008

No. 38013/1/2008-VSP (A)—On attaining the age of superannuation, Shri Madan Lal, Chief Editor, Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, will relinquish the charge of the said post with effect from the afternoon of the 31st May, 2008 and retire from Government service on the aforesaid date.

R. C. GABA, Dy. Secy.

## DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 3rd June 2008

No. A-12023/6/2007-Admn. III (LA)—The President is pleased to accept the notice of resignation dated 14.05.2008 tendered by Shri George George K, Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal. Shri George George K, shall stand relieved of his duties in the Income Tax Appellate Tribunal w.e.f. afternoon of 2nd June, 2008.

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

New Delhi, the 4th June 2008

No. A-12023/18/2007-Admn. III (LA)—In exercise of the powers conferred by Section 252 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the President is pleased to appoint Shri Maher Singh as Accountant Member of the Income Tax Appellate Tribunal with effect from the forenoon of 07.05.2008 and until further orders.

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. and Legal Adviser

## DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110 011, the 4th June 2008

No. K. 13021/1/2008-US. I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Sunkenahalli Narasimhaiah Satyanarayana, to be an Additional Judge of the Karnataka High Court, for a period of two years, with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

New Delhi-110 011, the 11th June 2008

No. K. 13018/1/2008-US. I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Harshvadan Binduprasad Antani and (ii) Shri Justice Bankim Nikhilbhai Mehta, Additional Judges of the Gujarat High Court as Permanent Judges of that High Court, in the same order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

K. GURTU, Director (Justice)

The 12th June 2008

No. K. 13031/2/2007-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Ajit Kumar Sinha, to be an Additional Judge of the Jharkhand High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

K. GURTU, Director (Justice)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &  
PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 5th June 2008

No. 13017/11/2008-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the

concurrence of the Governments of Tamil Nadu and Assam-Meghalaya, the Central Government hereby transfers Shri Puru Gupta, IAS (TN : 2006) from the IAS Cadre of Tamil Nadu to the IAS cadre of Manipur-Tripura with immediate effect on the ground of marriage to Ms. Sanjukta Parasor, IPS (AM : 2006).

S. J. KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 16th June 2008

No. 14015/23/2007-AIS (I)-A—In terms of provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2007 on 30th April, 2008 containing the names of Sh. Manjul Kumar Joshi (D.O.B. 08.12.1954) and Sh. Mohan Chandra Upreti (D.O.B. 25.12.1953), members of the State Civil Service of the Uttarakhand Cadre, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 28th December, 2007, towards filling up 02 vacancies in the Indian Administrative Service, Uttarakhand Cadre subject to the final outcome of the Writ Petition No. 306/2007 filed by the State of Uttarakhand in the Hon'ble High Court of Uttarakhand.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/23/2008-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Uttarakhand Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2007 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Uttarakhand Cadre, under Sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No.	Name of the Officer
---------	---------------------

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 1. | Shri Manjul Kumar Joshi   |
| 2. | Shri Mohan Chandra Upreti |

2. The appointment of above officers is subject to the final outcome of the Writ Petition No. 306/2007 filed by the State of Uttarakhand in the Hon'ble High Court of Uttarakhand.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 18th June 2008

No. 20019/21/2008-List (B)—The President is pleased to appoint Shri M.G. Khan, Secretary, Department of Posts

as Member, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 09th June, 2008.

(Smt.) SATI MOHANDAS, Under Secy.

New Delhi, the 20th June 2008

#### CORRIGENDUM

No. 13017/11/2008-AIS (I)—In partial modification to Notification No. 13017/11/2008-AIS (I) dated 5.06.2008 the words "Manipur-Tripura" in line no. 5 may be read as "Assam-Meghalaya". The rest of the contents of the Notification would be the same.

S. J. KUMAR, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st January 2008

No. 17/PB-I/2007—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement under Rule 48 of CCS Pension Rules, Shri O. P. Nerwal, an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) has retired voluntarily from Government service in the forenoon of 01 January, 2008 and relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs in the forenoon of 01.01.2008.

BHASKAR BHATT, Admn. Officer (PB-I)

#### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 10th June 2008

No. 6 (F. No. 4/18/2007 Ad. ED)—The President is pleased to appoint Ms. V. Neeraja, an officer of IPS (PB : 1994) as Deputy Director in the Directorate of Enforcement's Chandigarh Zonal Office in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- w.e.f. 15.6.2008 (AN) for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

K. K. KHATTAR, Under Secy.

New Delhi, the 11th June 2008

No. 11/2008 F. No. 6/8/2008-E.S.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Malhotra, Joint Secretary & Govt. Counsel, Ministry of Law & Justice, as Chairperson & Member of the Adjudicating Authority under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 with its Headquarters at New Delhi, by giving him additional charge of the post of Chairperson & Member of the said Adjudicating Authority for a period of six months with effect from 1.2.2008 or till regular appointment to the post is made or until further orders, whichever is the earliest.

S G.P. VERGHSESE, Under Secy.



## DEPARTMENTAL OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 14th May 2008

No. A-19014/9/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Raghbir Singh, Reader, Haryana State Consumer Disputes Redressal Commission to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal, Nagpur on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 02.04.2008 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 18th June, 2008

No. A-32015/1/2004-Ec. Ad. (Admin. I)—The President is pleased to appoint Shri Ashish Banerjee, Junior Investigator of the Office of the Economic Adviser as Economic Officer in this office on ad hoc basis for the period from 01.06.2008 to 30.11.2008 or till further orders whichever is earlier.

The appointment, ordered above, is made on purely ad hoc basis and does not confer any right upon the officer concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority, etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad hoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the officer concerned.

RANJAN MUKHERJEE, Dy. Director (Admn.)

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &  
PROMOTION)

New Delhi, the 13th May 2008

No. 1 (25)/2004-Expl.—The President is pleased to appoint the following Controller of Explosives, as Deputy Chief Controller of Explosives, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis in the Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	Shri C. R. Surendranathan	31.12.2007 (FN)
2.	Shri Dr. M. M. Beg	07.01.2008 (FN)
3.	Shri R. K. Maindola	31.12.2007 (FN)

A. S. DHALIWAL, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION  
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi-110 011, the 16th June 2008

No. A. 32013/04/2006-NTH (Estt.)—President is pleased to appoint Shri Tilak Roy Barman, Scientific Officer (Electrical) on promotion to the grade of Scientist-SB (Electrical) in the National Test House in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from Forenoon of the 12th May, 2008.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

New Delhi, the 17th June 2008

No. A-12011/9/2003-Estt.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 19th September, 2007, the President is pleased to extend the appointment of Shri A. S. Khan, a regular Assistant Director (Legal Metrology) as Deputy Director (Legal Metrology) on purely ad hoc basis for a further period of one year beyond 31.12.2007 i.e. from 01.01.2008 to 31.12.2008 or till the post of Deputy Director (Legal Metrology) is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above ad hoc appointment would not bestow upon Shri A. S. Khan any claim for regular appointment, seniority, confirmation, etc. in the grade of Deputy Director (Legal Metrology).

3. This issues with the concurrence of the Department of Personnel & Training vide their U. O. 8601/CR/08, dated 12.6.2008.

PREMA BHATT, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC  
DISTRIBUTION)DIRECTORATE OF VANASPATI, VEGETABLE OILS  
AND FATS

New Delhi-110 003, the 16th June 2008

No. A-12025/1/2007-Estt.—Shri Subhendu Ghosh is appointed as Development Officer in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- on temporary regular basis with effect from 29.05.2008 (FN) until further orders.

Dr. M. M. VERMA, Director

## MINISTRY OF ENVIRONMENT &amp; FORESTS

New Delhi, the 27th May 2008

No. 17013/1/2006-IFS-II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest

A. K. LAL, Director

AJAY K. LAL, Director

SURENDRA KUMAR, Director

No. A. 12021/1/2007 CPW—With the approval of the competent authority, the tenure of Dr. B. Sengupta, Member Secretary, Central Pollution Control Board which will expire on 16th June, 2008 (AN), is hereby extended for a period of three months w.e.f. 17th June, 2008 (FN).

SURENDRA KUMAR, Director

New Delhi-110 001, the 19th March 2008

A. K. LAL, Director

No. Z-16011/27/2006-R&P (Ay.)/(RTI)—In continuation of Department of AYUSH Notification No. Z. 16011/27/2006-R&P (AY.)/RTI dated 25th October, 2007/5/12/2007, in terms of Section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005, Dr. D. R. Lohar, Director, Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory (HPL) and Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine (PLIM), Ghaziabad under the Department of AYUSH Ministry of Health and Family Welfare is hereby designated as Appellate Authority with immediate effect in respect of all the matters being dealt with in both the Offices.

VERGHESE SAMUEL, Jr. Secy.

The 5th May 2008

No. Z. 16011/27/2006-R&P (Ay.)/(RTI)—In continuation of Department of AYUSH Notification No. Z. 16011/27/2006-R & P (AY.)/(RTI) dated 15th October, 2007/5/12/2007 and 19th March 2008, in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Dr. S. K. Ghosh Mandal, Director, National Institute of Homoeopathy (NIH), Kolkata under the

© 2008 by Gale, a part of The Gale Group, Inc. All rights reserved. VK

Department of AYUSH Ministry of Health and Family Welfare, is hereby designated as Appellate Authority with immediate effect in respect of all the matters being dealt with in the National Institute of Homoeopathy (NIH).

VERGHESE SAMUEL, Jt. Secy.

**MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND  
COOPERATION)**

New Delhi, the 28th April 2008

No. 27-2617/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri S. L. Bhat, IAS (JK : 76) as Additional Secretary and Financial Advisor in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- w.e.f. the forenoon of 28th April, 2008.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 16th May 2008

No. 27-2793/08-E.I.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Singh as Director in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. the forenoon of 16th May, 2008.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 22nd May 2008

No. 12022/2/2006-E.I (Part I)—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, regular Steno Grade 'C' of CSSS to the post of Steno Grade 'A&B' (Merged) (Designated as PS) in the Department of Agriculture & Cooperation on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the 7th May, 2008 (F.N.) for a period upto 30.6.2008 or till further orders, whichever is earlier.

2. The promotion is purely on ad hoc basis and will not confer any claim for regular promotion and seniority in the grade of Private Secretary.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

**DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING  
& FISHERIES**

New Delhi, the 17th June 2008

No. 1-19011/4/2008-Admn. 1—The President is pleased to appoint Shri K. Omprakash as Joint Commissioner (Fy. APL) on ad hoc basis in the scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in this Department w.e.f. the forenoon of 09.06.2008 for a period of one year or till the joining of regular incumbent, whichever takes place earlier.

P. L. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 17th June 2008

No. 11-2/2008-Admn. III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sweta Raghuvanshi as Assistant Director in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the National Institute of Animal Health (NIAH), Baghapat, U. P. in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture on direct recruitment basis, with effect from the forenoon of 25th April, 2008, until further orders.

A. K. JAIN, Under Secy.

**MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**

New Delhi, the 12th June 2008

No. 22-30/2006-Admn.—The President is pleased to relieve Ms. Shalini Prasad, IAS (UP-85) presently on Compulsory Wait with the Ministry of Women and Child Development for taking up her new assignment as Joint Secretary, National Aids Control Organization (NACO) under the Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare in accordance with the Order No. 36/19/2008-EO (SM. I) dated 4.6.2008 of the Appointments Committee of the Cabinet.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 12th June 2008

No. F. 5-1/2003 D-II (L)—The President is pleased to re-appoint Dr. K. Bijay Kumar, Professor of Botany, Khalikota College (Autonomous), Belpur (Orissa) as Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology, a Subordinate office under the Department, in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- on tenure basis for a further period of three years w.e.f. 30.05.2008 or till the date of his superannuation from the Government of Orissa or until further orders, whichever is earlier. The other terms and conditions as mentioned in the notification of even No. dated 06.07.2005 remains the same.

RASHMI CHOWDHARY, Director

**MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS**

New Delhi, the 9th June 2008

No. 1-18-2004-YS I—In pursuance of Rule 9(a) of Rules of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Shri Madhu Goud Yashki, MP (LS) is hereby nominated as a Member by the Government of India to the Board of Governors of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, against the vacancy, under "Member of Parliament", with immediate effect.

2. The term of the membership of Shri Madhu Goud Yashki, MP, will be for three years from the date of his

nomination, or till the dissolution of the House, or till his ceasing to be a Member of the House, or till further orders, whichever is earlier.

3. This will be subject to other provisions of the Bye-laws and Rules of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

SARADA ALI KHAN, Director (YA)

---

#### NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

New Delhi-03, the 9th June 2008

No. 15-6/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Mohan Krishen Khanna, IAS (RJ : 74) as Secretary in the National Commission for Minorities.

2. Shri Mohan Krishen Khanna has assumed charge of the office of the Secretary, National Commission for Minorities w.e.f. 02.06.2008 (F.N.)

SANJIV CHAKRAVORTY, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 17th June 2008

No. 3(2)/2008-P. I.—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint on promotion Smt. Shakuntala Gupta, Personal Assistant as Private Secretary in this Department in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 17.06.2008.

2. Her appointment is against a vacancy due to regular incumbent away on deputation and in case of reversion of such deputationist, she will be reverted to her substantive post of Personal Assistant if not adjusted against regular vacancy.

GIRISH SAHAI, Dy. Director

---

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi the 10th June 2008

No. E(O)III-2008/RN/15—Consequent upon his permanent absorption in RCIL, Shri Ashutosh Vasant, SG/

IRSSE, has resigned from Railway service with effect from 30.04.2008.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

No. E(O)III-2008/RN/16—Consequent upon his permanent absorption in RCIL, Shri S. B. Sharma, SG/IRSSE, has resigned from Railway service with effect from 29.04.2008.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

No. E(O)III-2008/RN/17—Consequent upon his permanent absorption in RCIL, Shri A. Seshagiri Rao, SAG/IRSSE, has resigned from Railway service with effect from 15.05.2008.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

No. E(O)III-2008/RN/18—Consequent upon his permanent absorption in RCIL, Shri J. P. Singh, SAG/IRSSE, has resigned from Railway service with effect from 28.04.2008.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

---

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS (DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 12th June 2008

No. LH-21015/2004-SL—The President is pleased to promote Shri H. Yerriswamy, Junior Engineer (Civil) to the post of Assistant Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Directorate of Lighthouse & Lightships with effect from the forenoon of 28th November, 2007, until further orders.

S. K. GOSWAMI, Under Secy.

---

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1008  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD-100  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008